

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 6 फरवरी 2020—माघ 17, शक 1941

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग  
“निर्वाचन भवन”  
58, अरेरा हिल्स, भोपाल—462011

आदेश

भोपाल, दिनांक 5 फरवरी 2020

क्र. एफ-57-NN-01-2019-पांच-48.—मध्यप्रदेश नगरपालिका निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 11-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, आयोग का आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2019 जिसका प्रकाशन “मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 432 में दिनांक 02 नवम्बर, 2019” को हुआ है, के पार्षद हेतु विहित मुक्त निर्वाचन प्रतीक की सूची में क्रमांक-02 में अंकित प्रतीक “चाबी” को एतद्वारा विलोपित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार,  
हस्ता./-  
( दुर्ग विजय सिंह )  
सचिव,  
मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.